



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27122024-259660
CG-MH-E-27122024-259660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5130]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946

No. 5130]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 24 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5545(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20'क की उप-धारा(1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेलमंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 2342 तारीख 26 जून, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले में ग्राम चिचोडिया, तहसील सरदारपुर में दाहोद -इंदौर बड़ी लाइन नाम की विशेष रेलपरियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा-20'क की उपधारा (4)के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात "फ्री प्रेस जनरल" में तारीख 05 जुलाई, 2024 और नई दुनिया, दैनिक भास्कार में तारीख 05 जुलाई, 2024 को प्रकाशित किया गया था। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया। धारा 20ड की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-20(ड) की उप-धारा(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में इंदौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाइन, विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम :- धार ग्राम चिचोडिया, तहसील सरदारपुर (म.प्र.)

क्र. सं.	जिला	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या खसरा न.	भूमि का प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेर	भू स्वामी का नाम
1	धार	चिचोडिया	सरदारपुर	16	0.0017	बाबूलाल पुत्र पूनाजी जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2				26	0.2054	फूलचंद पुत्र नानूराम जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3				69	0.0121	मिश्रीबाई पुत्री रामा जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4				70	0.0277	अम्बाराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राम्हण पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5				109	0.2711	दिलीप पुत्र अंबाराम जाति ब्राम्हण पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6				114	0.0347	रेशमबाई पिता घीसा जाति चमार पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सम्पतबाई बेवा काशीराम जाति चमार पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कालू पिता काशीराम जाति चमार पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, धनराज पिता काशीराम जाति चमार पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संगीता पिता काशीराम जाति चमार पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7				115	0.0732	सिताराम पिता कालू जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8				203	0.0724	घनश्याम पुत्र अंबाराम जाति ब्राम्हण पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9				215	0.0770	गंगाबाई पत्नी भेरूसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10				218	0.2815	बंटू पिता वेस्ता जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, भूरीबाई बेवा वेस्ता जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रमेश पिता दलसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, केलाश पिता दलसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11				220	0.1061	बंटू पिता वेस्ता जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, भूरीबाई बेवा वेस्ता

					जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रमेश पिता दलसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, केलाश पिता दलसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12			221	0.1707	रामचन्द्र पुत्र शंकर जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13			275	0.0609	अम्बाराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राम्हण पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14			277	0.1219	घनश्याम पुत्र अंबाराम जाति ब्राम्हण पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15			279	0.1940	मिश्रीबाई पुत्री रामा जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16			280	0.0830	पूजा पिता रामा जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17			282	0.0800	राधाबाई पति नरसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18			283	0.0467	राहुल पिता फुलचन्द्र जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19			285	0.0362	राहुल पिता फुलचन्द्र जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20			299/2	0.0044	भगवान पुत्र दल्ला पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21			300	0.3922	मोहनलाल पिता श्रीकृष्ण जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुनीलकुमार पिता श्रीकृष्ण जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, ज्योतीबाई बेवा ओमप्रकाश जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मुरलीधर पिता गोविन्दप्रसाद जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुशीलाबाई बेवा श्यामनारायण जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राजेशकुमार पिता श्यामनारायण जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राकेशकुमार पिता श्यामनारायण जाति जायसवाल पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22			301	0.2933	शंकर पिता मन्दरूप जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23			306	0.0165	सुखराम पिता शम्भू जाति भील पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24			307/2	0.1001	मयाराम पिता शम्भू जाति भील पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25			329	0.0612	सुखराम पिता शम्भू जाति भील पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26			347	0.2105	शम्भू पिता किसना जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27			350	0.2475	मयाराम पिता शम्भू जाति भील पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28			361	0.0022	मयाराम पिता शम्भू जाति भील पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29			23/1/1	0.0355	शंकर पिता मन्दरूप जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

30			29/1/2	0.0934	प्रेमचंद पुत्र मंदरुप जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31			10/1	0.0048	दाखुडीबाई पुत्री पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बैक बन्धक भूमि
32			11/1/1	0.0556 0.1555	अमृत पिता लालु जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कंचनबाई बेवा लालु जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अंकित पिता भेरू जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, विकास पिता भेरू जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राजूबाई बेवा भेरू जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
33			11/1/2		बल्लू पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मगन पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शम्भू पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शैतान पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34			25/1	0.0487	नानालाल पिता कोदरिया जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुखराम पिता कोदरिया जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सोनकीबाई बेवा कोदरिया जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35			31/1	0.0003	नानालाल पिता कोदरिया जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुखराम पिता कोदरिया जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सोनकीबाई बेवा कोदरिया जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
36			10/2	0.0993	बल्लू पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मगन पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शम्भू पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शैतान पिता पुन्या जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
37			25/2	0.0487	जगदीश पुत्र मिश्रीलाल जाति मारु पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
38			10/3	0.0754	रामचन्द्र पुत्र शंकर जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
39			11/3	0.0457	रामचन्द्र पुत्र शंकर जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
40			204/1/1	0.0005	दस्यु पिता घीसा जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
41			204/1/2	0.0435	बाबूलाल पुत्र पूनाजी जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
42			204/1/3	0.0340	बाबूलाल पुत्र पूनाजी जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
43			223/1	0.0283	फूलचंद पुत्र नानूराम जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
44			223/2	0.0142	रूगनाथ पुत्र लुणा जाति मारु पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

45				223/3	0.0086	हिरालाल पुत्र लुणा पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
46				276/2/1	0.0078	रूगनाथ पुत्र लुणा जाति मारू पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
47				276/2/2	0.0065	बाबूलाल पुत्र पूनाजी जाति मारू पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
48				305/1	0.0866	बाबूलाल पुत्र पूनाजी जाति मारू पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
49				305/2	0.0784	बाबूलाल पुत्र पूनाजी जाति मारू पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
50				351/1	0.0007	दशरथसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत पता सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
51				351/2/1	0.1550	नारायणसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
52				351/2/2	0.0985	बद्रीलाल पिता मानसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रतन पिता मानसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मनुड़ी पिता मानसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राजूबाई पिता मानसिंह जाति भील पता चिचोडिया सरदारपुर धार मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
			कुल		4.5097	

[फा. सं. ई.-ऑफिस (E.514544-80)]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता (निर्माण-IV)

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th December, 2024

S.O. 5545(E).—Where as by the Notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2342 dated the 26th June 2024 published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (ii), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24of1989)(here in after referred to as the said Act),the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, New BG Line project From Dahod - Indore Via, Jhabua, Sardrapur, dhar and Pithampur (204.76km) in **District Dhar, Tehsil Sardarpur Village Chinchodiya** in the state of Madhya Pradesh. And whereas, the substance of the said notification was published in daily “Free press Journal” dated 05th July. 2024 and “Nai Duniya”&“Dainik Bhaskar” dated 05th July. 2024 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act. And, whereas, nil objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the afore said purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section **20 (E)** of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Indore –Dahod New Railway Line Project in the state of Madhya Pradesh.

District: Dhar, tehsil –Sardarpur **Chinchodiya** village (M .P.)

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number	Land to be Acquired Area in hect.	Land Owner Name
1	Dhar	Sardarpur	Chinchodiya	443	0.0017	Baaboolaal Putr Poonajee Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
2				444	0.2054	Foolachand Putra Nanuram Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
3				451	0.0121	Mishreebaee Putree Raama Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
4				464	0.0277	Ambaaraam Putr Raamachandr Jaati Braamhan Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
5				466	0.2711	Dileep Putr Ambaaraam Jaati Braamhan Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
6				556	0.0347	Reshamabaee Pita Gheesa Jaati Chamaar Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sampatabaee Beva Kaasheeraam Jaati Chamaar Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kaaloo Pita Kaasheeraam Jaati Chamaar Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Dhanaraaj Pita Kaasheeraam Jaati Chamaar Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sangeeta Pita Kaasheeraam Jaati Chamaar Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
7				577	0.0732	Sitaaraam Pita Kaaloo Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
8				583	0.0724	Ghanashyaam Putr Ambaaraam Jaati Braamhan Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
9				584	0.0770	Gangaabaee Patnee Bheroosinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
10				590	0.2815	Bantoo Pita Vesta Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Bhooreebaee Beva Vesta Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Ramesh Pita Dalasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kelash Pita Dalasingh Jati Bhil Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
11				593	0.1061	Bantoo Pita Vesta Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Bhooreebaee Beva Vesta Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Ramesh Pita Dalasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya

						Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kelash Pita Dalasingh Jati Bhil Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
12				675	0.1707	Ramchandra Putra Shankar Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
13				685	0.0609	Ambaaraam Putr Raamachandr Jaati Braamhan Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
14				690	0.1219	Ghanashyaam Putr Ambaaraam Jaati Braamhan Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
15				692	0.1940	Mishre bae Putree Raama Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
16				694/1	0.0830	Pooja Pita Raama Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
17				694/2	0.0800	Radha bae Pati Narasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
18				696	0.0467	Rahul Pita Phulachandr Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
19				697	0.0362	Rahul Pita Phulachandr Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
20				705	0.0044	Bhagavaan Putr Dalla Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
21				710	0.3922	Mohanalaal Pita Shreeqashn Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Suneelakumaar Pita Shreeqashn Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Jyoteebae Beva Omaprakaash Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Muraleedhar Pita Govindraprasaad Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Susheelaabae Beva Shyamanarayan Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Raajeshakumaar Pita Shyamanarayan Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Raakeshakumaar Pita Shyamanarayan Jaati Jaayasavaal Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
22				717	0.2933	Shankar Pita Mandarup Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
23				8/1	0.0165	Sukharam Pita Shambhu Jati Bhil Pata Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
24				9/1	0.1001	Mayaaram Pita Shambhu Jati Bhil Pata Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
25				10/1	0.0612	Sukharam Pita Shambhu Jati Bhil Pata Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami

26				9/2	0.2105	Shambhoo Pita Kisana Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
27				10/2	0.2475	Ayaaram Pita Shambhu Jati Bhil Pata Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
28				8/3	0.0022	Mayaaram Pita Shambhu Jati Bhil Pata Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
29				448/1	0.0355	Shankar Pita Mandarup Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
30				448/2	0.0934	Premchand Putra Mandarup Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
31				582/1	0.0048	Daakhudeebaee Putree Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami Baik Bandhak Bhoomi
32				656/2	0.0556	Amrut Pita Laalu Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kanchanabaee Beva Laaloo Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Ankit Pita Bheroo Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Vikaas Pita Bheroo Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Raajoobaee Beva Bheroo Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
33				674/1	0.1555	Baloo Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Magan Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Shambhoo Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Shaitaan Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
34				674/2	0.0487	Naanaalaal Pita Kodariya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sukharaam Pita Kodariya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sonakeebaee Beva Kodariya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
35				674/3	0.0003	Naanaalaal Pita Kodariya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sukharaam Pita Kodariya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sonakeebaee Beva Kodariya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
36				674/4	0.0993	Baloo Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Magan Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Shambhoo Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Shaitaan Pita Punya Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami

37				677/4	0.0487	Jagadeesh Putr Mishreelaal Jaati Maaru Pata Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
38				679/1	0.0754	Ramchandra Putra Shankar Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
39				679/2	0.0457	Ramchandra Putra Shankar Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
40				681/1	0.0005	Dasyu Pita Gheesa Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
41				698/1	0.0435	Baaboolaal Putr Poonajee Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
42				698/2/1	0.0340	Baaboolaal Putr Poonajee Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
43				698/2/2	0.0283	Foolachand Putra Nanuram Jati Maru Pata Chichodia Saradarapur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
44				707/1/1	0.0142	Rooganaath Putr Luna Jaati Maaroo Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
45				707/1/2	0.0086	Hiraalaal Putr Luna Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
46				708/3	0.0078	Rooganaath Putr Luna Jaati Maaroo Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
47				708/2	0.0065	Baaboolaal Putr Poonajee Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
48				709/1	0.0866	Baaboolaal Putr Poonajee Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
49				709/2	0.0784	Baaboolaal Putr Poonajee Jaati Maaru Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
50				711/1	0.0007	Dasharathasinh Putr Kishanasinh Jaati Raajaput Pata Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
51				711/2	0.1550	Naaraayanasinh Putr Kishanasinh Jaati Raajaput Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
52				719/2	0.0985	Badreelaal Pita Maanasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Ratan Pita Maanasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Manudee Pita Maanasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami, Raajoobae Pita Maanasinh Jaati Bheel Pata Chichodiya Sardarpur Dhar Madhya Pradesh Bhumi Swami
	Total				4.5097	

[F. No. E.- Office (E.514544-80)]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer (Construction-IV)